

## जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय

### जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

11 जुलाई 2019

#### जामिया में शॉर्ट टर्म एंटरप्रेन्योरशिप डिवेलपमेंट प्रोग्राम के दाखिले शुरू, 4 नए कोर्स शामिल

जामिया के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने चार नए कोर्स शामिल करते हुए, विभिन्न एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स :ईडीपी: के दाखिले शुरू कर दिए हैं।

ये चार नए कोर्स, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के एनएसआईसी :नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन: के सहयोग से शुरू किए गए हैं। ये कोर्स हैं: सेल्स एंड मार्केटिंग, ग्रूमिंग ऑफ फैक्ट्री ऑपरेशन..एसेम्बली लाईन.. पैकेजिंग, सीएनसी:कंप्यूटर-कंट्रोलड मशीन: बेसिक ट्रेनिंग, सीएनसी:कंप्यूटर-कंट्रोलड मशीन: एडवांस ट्रेनिंग।

यह सेंटर, पीईटी बोटल निर्माण और पेयजल पैकेजिंग, बेकरी उत्पाद, मसाले पीसने और पैकेजिंग, पेपर कप..ग्लास. प्लेट्स निर्माण और टेलरिंग तथा कढ़ाई संबंधी ईडीपी के कोर्स, पहले से ही चला रहा है।

लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेशन:एलबीआई: सेंटर में ये प्रोग्राम्स, इनोवेशन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एनएसआईसी योजना के तहत चलाए जा रहे हैं। इसका मकसद, स्टार्ट-अप कारोबार शुरू करने की ख्वाहिश रखने वाले नौजवानों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

जस्ट क्लीन रोजगार नामक एक संगठन, इन कोर्स को पूरा करने वाले सफल उम्मीदवारों के लिए नौकरी सुनिश्चित करने के लिए राजी हो गया है।

पीईटी बाॅटल मेकिंग, बेकरी प्रोडक्ट्स, स्पाइस ग्रिंडिंग एंड पैकिंग, ब्यूटीशियन ट्रेनिंग, टेलरिंग और कढ़ाई कोर्स की न्यूनतम योग्यता आठवीं पास होना जरूरी है। ये कोर्स 8 हफ्ते चलेंगे।

सीएनसी: कंप्यूटर-कंट्रोलड मशीन: बेसिक ट्रेनिंग के लिए भी आठवीं पास होना जरूरी है। इस कोर्स की मियाद 45 दिन है।

सेल्स एंड मार्केटिंग, ग्रूमिंग आँफ फैक्ट्री आँपरेशन..एसेम्बली लाइन..पैकेजिंग एंड सीएनसी एडवांस ट्रेनिंग के दाखिले के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास या उसके समकक्ष होना जरूरी है। सेल्स एंड मार्केटिंग, ग्रूमिंग आँफ फैक्ट्री आँपरेशन..एसेम्बली लाइन..पैकेजिंग कोर्स, एक महीने का है जबकि कंप्यूटर-कंट्रोलड मशीन: एडवांस ट्रेनिंग, दो महीने चलेगी।

दाखिले के आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2019 है। इच्छुक उम्मीदवार, कार्यदिवस में, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन:एलबीआई: सेंटर से फार्म ले सकते हैं। ये सेंटर, जामिया के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के नज़दीक है।

**अहमद अज़ीम**

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक